EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

(formerly Emergent Global Edu and Services Limited)
CIN L80902DL1983PLC209722

Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi – 110 001; Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914; Email: sotl@somanigroup.com; cs@somanigroup.com; Website:www.eesl.in

August 17, 2023

Manager – Listing, Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Limited, Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **Mumbai –400 001**

Scrip Code: 506180

Sub: Compliance of Regulation 30 - News Paper Publication

Dear Sir,

Please find the enclosed copies of un-audited financial results for the quarter ended 30.06.2023 published in the newspaper "Financial Express" - English Edition and "Jan Satta" - Hindi Edition on 15.08.2023.

Please take note of the same.

Thanking You,

Yours Faithfully, For Emergent Industrial Solutions Limited

(Sabina Nagpal) Compliance Officer

Encl: a/a

(पूर्व का इमर्जेंट ग्लोबल एइ एण्ड सर्विसेज लिमिटेड) सीआईएन : L80902DL1983PLC209722 पंजीकत कार्यालय :8-बी. 'सागर'. 6. तिलक मार्ग. नई दिल्ली-110001:

दूरभाष : (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; फैक्स : (91) (11) 2378 2806, 23381914 ; ई-मेल : cs@somanigroup.com; वेबसाइट : www.eesl.in

30 जून, 2023 का समाप्त तिमाहा हतु स्टण्डअलान एवं समाकत अनकक्षित वित्ताय पारणामा के विवरण का साराश विवरण 30 जन. 2023 - 31 मार्च, 2023 - 30 जन. 2022 - 31 मार्च, 2023 - 30 जन. 2023 - 31 मार्च, 2023 - 30 जन. 2022 - 31 मार्च, 2023 1,198.24 1,195.39 15,442.79 2 अवधि हेत लाभ/हानि (कर अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से प्र 66.59 47.93 198.60 53.73 63.36 186.32 57.02 66.59 51.05 198.60 53.73 47.93 63.36 186.32 149.23 49.79 40.50 47.42 35.89 139.47 38.42 150.14 38.42 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 ,919.58 (अ) बेसिक 0.84 3.27 3.05 (ब) डाइल्युटेड 9 आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पश्चात) (वार्षिकीकत नहीं

नोटः उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 30 जुन, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.eesl.in पर उपलब्ध है।

1.09

0.84

3.27

0.89

0.94

बोर्ड के आदेशानसा कृते इमर्जेंट इण्डस्ट्रियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड

1.04

शोभा साहर्न (चेयर पर्सन)

डीआईएन : 07478373

0.79

3.05

(अ) बेसिक

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 14.08.2023

> नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयुर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440 CIN. No: L45101DL1996PLC315772; ईमेल: ntbcl@ntbcl.com, वेबसाईट:www.ntbcl.com

30 जन. 2023 को समाप्त तिमाही के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण		स्टैण्डएलोन				समेकित			
सं.			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	प्रचालनों से कुल आय	375.33	522.85	650.73	2,681.83	375.41	523.38	650.76	2,682.84	
II .	कराधान के पूर्व वर्ष/अवधि हेतु लाभ	(916.62)	(1,010.52)	(881.24)	(3,527.51)	(919.14)	(1,008.69)	(882.54)	(3,512.90)	
III	सतत प्रचालनों से निवल लाभ/(हानि)	(916.62)	(1,010.52)	(881.24)	(3,527.51)	(919.14)	(1,008.83)	(882.54)	(3,513.25)	
IV	अविध हेतु कुल अन्य व्यापक आय	0.29	(0.63)	(0.47)	1.16	0.38	(1.09)	(0.39)	1.51	
V	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(916.33)	(1,011.15)	(881.71)	(3,526.35)	(918.76)	(1,009.92)	(882.93)	(3,511.74)	
VI	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	
VII	आरक्षिति (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	N/A	N/A	N/A	5,003.13	N/A	N/A	N/A	4,998.40	
VIII	आय प्रति शेयर						7	10		
	बेसिक	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	
	डाइल्यूटेड	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	

टिप्पणी तथा वित्तीय परिणाम

1. उपरोक्त परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन रहे जिनकी ऑडिट कमिटी द्वारा की गई तथा 14 अगस्त. 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

2. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 के अपने फैसले में 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देते हुए और रियायत समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए) कंपनी को निर्देश दिया था कि शुल्क वसूलने और संग्रह करने से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को निष्क्रिय मानते हुए, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करना बंद करें, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल लीव एप्लीकेशन (एसएलपी) दायर की गई है जिसमें उक्त फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की

11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कल लागत कम्पनी द्वारा वसल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये।

विशेष अनमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चूंकि नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक नोटिस भेजी थी।

विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा दोनों कंपनी एवं नोएडा ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। आगे, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।

नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के

आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा को बिना किसी राहत के 31 जनवरी, 2019 को निपटा दिया था। नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों

पर स्टे का निर्देश दिया।

31 जनवरी,2020 को, कंपनी ने 12 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत दिए गए अंतरिम स्थगन की छुट्टी के लिए एक आवेदन दायर किया। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 26 जुलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021 और बाद में 26 अक्टूबर, 2021 के लिए पोस्ट कर दिया गया।

इस बीच, कंपनी को 4 अक्टूबर, 2021 को नोएडा से 30 सितंबर, 2021 को मांग का अंतिम नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें नोएडा ने कथित रूप से 26.05 करोड़ रुपये की मांग की, जो कंपनी द्वारा भुगतान की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर देय होगा, जिसमें विफल रहने पर नोएडा डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की तरफ सभी विज्ञापन डिस्प्ले को हटाने की धमकी दी। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 अक्टूबर, 2021 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर तत्काल पत्र/उल्लेख के आधार पर, मामले को 26 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया था। कंपनी द्वारा नोएडा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी घटनाक्रमों की सुचना देने के बावजूद, नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की ओर के सभी विज्ञापन डिस्प्ले को अवैध रूप से हटा दिया।

इसके अलावा, समय की कमी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले को 9 नवम्बर, 2021 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया और बाद में 1 दिसंबर, 2021 और 🤅 दिसंबर, 2021 पर सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। इसके बाद, 9 दिसंबर,2021 को, मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर, 2021, 6 जनवरी, 2022 और 10 जनवरी, 2022 को सुना गया। 19 जनवरी, 2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2021 अक्टूबर को दायर अंतरिम आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि कंपनी को कंपनी के नेतृत्व में 2016 के एसएलपी के प्रतिफल के अधीन 125 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के भुगतान पर बाहरी विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जा सकती है। एसएलपी को अंतिम निपटान के लिए 29 मार्च, 2022 के लिए पोस्ट किया गया था, और इसे प्रत्येक बार समय की कमी के कारण 10 मई, 2022, 23 अगस्त, 2022, 18 अक्टूबर, 2022 2 नवंबर, 2022 और 10 जनवरी, 2023 के लिए पोस्ट कर दिया गया। इसके पश्चात मामले की सुनवाई 27 जुलाई, 2023 को हुई और अब इसे सितम्बर, 2023 के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता से कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण करने और उक्त तिथि पर माननीय उच्चतम न्यायालय की सहायता करने का अनरोध किया।

रियायत समझौते (मुआवजे और अन्य संसाधनों से संबंधित) के प्रावधानों पर निदेशक मंडल द्वारा रखी गई कानुनी राय और निर्भरता के आधार पर, कंपनी को विश्वास है कि अमूर्त और अन्य संपत्तियों के अंतर्निहित मुल्य बिगड़े नहीं हैं।

कम्पनी परियोजना आस्तियों के रखरखाव सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।

. 20 सितंबर, 2021 को, कंपनी को निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पठित आयकर विभाग से धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से भूमि के मुल्यांकन के कारण, भूमि को राजस्व सब्सिडी मानने के कारण 46.23 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

कंपनी ने 30 सितंबर.2021 को आयकर के निर्धारण अधिकारी से दंड की कार्यवाही को रोके रखने का अनुरोध किया और 19 अक्टूबर,2021 को आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के पास उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर की।

दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेतू निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें क्रमशः 357 करोड़ रुपये और 383.48 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित है, जो मख्य रूप से भविष्य में वसल की जाने वाली निर्दिष्ट रिटर्न की बकाया राशि, भूमि के मुल्यांकन और अन्य वसलियों के कारण है। कंपनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। फेसलेस अपील में संक्रमण के साथ, जैसा कि फेसलेस अपील योजना, 2020 के तहत पेश किया गया था, दोनों अपीलों को एनएफएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कंपनी को नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए एनएफएसी से एक कारण बताओ नोटिस, दिनांक 15 मई,2021, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि दंड की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए क्योंकि योग्यता के आधार पर अपील वर्तमान में आयकर आयक्त (अपील) के समक्ष लंबित है। आयकर विभाग ने पहले के वर्षों में 1,340.03 करोड़ रुपये की मांग की है, जो मुख्य रूप से भूमि के आवंटन के कारण टोल और राजस्व सब्सिडी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले नामित रिटर्न के बकाया के कारण था। 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त होने के अनुसरण में, सीआईटी (ए) के उक्त आदेश के अनुसार, जिससे 10,893.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी, कंपनी को निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के संबंध में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भिम के मुल्यांकन के कारण हुई। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ स्टे आवेदन के साथ एक अपील दायर की है

यथास्थिति बनाए रखने के निदेशों के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थिगित कर दिया। इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए जुर्माना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ एक स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की। आईटीएटी ने

आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी, 2019 और 6 फरवरी, 2019 को मामले की सुनवाई की गई और 15 अक्टूबर, 2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर, आईटीएटी ने

मामले की सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। 21 अप्रैल, 2022 को, कंपनी ने माननीय आईटीएटी के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में आईटीएटी द्वारा 6 मई, 2022 को मामले की सुनवाई की गई। स्थगन आवेदन के साथ मेरिट के आधार पर अपील 21 जुलाई, 2022 और 20 अक्टूबर, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट की गई थी, हालांकि विभाग द्वारा नियुक्त विशेष वकील द्वारा

स्थगन की मांग करने के कारण मामले पर सनवाई नहीं हो सकी और मामले को 25 जनवरी, 2023 को सनवाई के लिए सचीबद्ध किया गया। 25 जनवरी, 2023 और 15 मार्च, 2023 को माननीय आईटीएटी के ही एक विद्वान सदस्य दो अलग-अलग बेंचों की अध्यक्षता कर रहे थे और समय की कमी के कारण मामले को नहीं लिया जा सका। चंकि अपील स्टे द्वारा कवर की जाती हैं, तदनसार कंपनी के वकील के अनरोध पर, माननीय आईटीएटी ने विभाग को सनवाई की अगली तारीख यानी 5 जन, 2023 तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

कंपनी ने 5 जून, 2023 को माननीय आईटीएटी से मामले पर बहस करने के लिए दो स्पष्ट तारीखों का अनुरोध किया और सुनवाई की अगली तारीख यानी 26 जुलाई, 2023 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया। तदनुसार, 26 जुलाई, 2023, 1 अगस्त, 2023 को मामले की सुनवाई, बहस और प्रतिवाद किया गया और 2 अगस्त, 2023 को समाप्त हुआ। नतीजतन, 8 अगस्त, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से, माननीय आईटीएटी ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2011-12 के लिए अपना निर्णय सुनाया है जिसमें राजस्व की अपीलें खारिज कर दी गईं और कंपनी की अपील की अनुमित दी गई, इस प्रकार आईटीएटी के साथ 23,127 करोड़ रुपये के अपील में कुल मांग का लगभग 72% संबोधित किया गया। आकलन

वर्ष 2012-13 से 2014-15 से संबंधित लंबित अपीलों के लिए सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर, 2023 तय की गई है। . कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सन्दर्भ में 15 अक्टूबर, 2018 को कट–ऑफ तिथि (''कट-ऑफ तिथि'') प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों सहित नये बोर्ड द्वारा प्रस्तृत संशोधित समाधान फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। माननीय एनसीएलएटी ने कंपनी समेत आईएल एंड एफएस और इसकी समूह कंपनियों के लिए संकल्प प्रक्रिया शुरू करने के लिए कट ऑफ तिथि के रूप में 15

अक्टूबर, 2018 को भी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, कंपनी ने 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि'') से प्रभावी अपने सभी ऋणों और उधारों पर कोई ब्याज नहीं दिया है। 5. 23 अगस्त, 2018 और 1 नवंबर, 2018 के लाइसेंस समझौते और 1 जुलाई, 2019 के परिशिष्ट के अनुसार, पूर्व लाइसेंसधारी के साथ, कंपनी ने उक्त अनुबंध को उसके प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिया है। पूर्व लाइसेंसधारी ने कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की है। इस संबंध में मामले की सुनवाई विद्वान आर्बिट्रेटर द्वारा 6 दिसंबर, 2022, 9 दिसंबर, 2022, 1 दिसंबर, 2022, 21 जनवरी, 2023, 1 फरवरी, 2023, 13 फरवरी, 2023, 3 मार्च, 2023, 11 मार्च, 2023 और 4 मई, 2023, 7 जुलाई, 2023 को सुनवाई की गयी और अब इसे 17 अगस्त, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। कंपनी ने 3 मार्च, 2023 के आर्बिट्रेटर के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें कंपनी को दिल्ली के माननीय उच्च

न्यायालय में मामले के अंतिम निपटारे तक मध्यस्थ के उक्त आदेश पर रोक प्राप्त करने के लिए आर्बिट्रेटर के पास 5 करोड़ रुपये की सावधि जमा जमा करने की आवश्यकता थी। 6. खातों की पुस्तकों को फिर से खोलना, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ('एसएफआईओ') और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा जांच और ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा फोरेंसिक जांच,

जो कुछ समृह संस्थाओं के लिए प्रक्रिया में है, का कंपनी के वित्तीय विवरणों / संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 7. कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागु नहीं है।

8. 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च,2023 को समाप्त पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर,2022 को समाप्त तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।

9. उपरोक्त सेबी (सुचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार

है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कार्यकारी निदेशक

10. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़े पुनर्समुहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

IMPORTANT

Whilst care is taken prior to बइजलास श्री कमल सोनी वाद मनोहर लाल वगै. प्रतिवादी श्यामवती ठाकुर वर्गे दावा बाबत इकरारनामा की विनिर्दिष्ट, पालना मकदमा नं. Co 06 वर्ष | 2023 बन acceptance of advertising मुसम्मी नीलम मिन्हास पुत्री स्व. श्री ज्ञान चन्द्र पत्नी श्री एम. मिन्हास उम्र 56 वर्ष ज copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or अवधारित किया जावेगा । entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

राजपूत (ठाकुर) निवासी-म.नं. 584, गली नं. 20. डी. डी. ए. जनता फलेव मदनगीर .कि मनोहर लाल वगै. वादी ने तुम्हारे खिलाफ (51 अम्बेडकर नगर) लि वाद संस्थित किया है अतएव तम्हे एतद्वारा आहत किया जाता है कि तम या तो स्व या ऐसे अधिवक्ता द्वारा जो कि समय के रूपेण अनविष्ठ है और वाद सम्बन्धी र सारवान पश्नों के उत्तर देने में समर्थ है या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऐ सब प्रश्नों के उत्तर देने में समक्ष है दिनाक 21 माह 08 सन 2023 वार... को 10 ब अद में दावे का उत्तर | देने के लिए इस न्यायालय में उपस्थित हो और तम्हें आगे र निर्देश दिया जाता है कि तम उस दिन अपनी प्रतिरक्षा को लिखित कथन फाईल क और उस दिन सब दस्तावेजों को जो तम्हारे कब्जे या शक्ति में हो पेश करो जिन तुम अपनी प्रतिरक्षा या मुबरा या एतदावा निर्भर करते हो वहा तुम अपनी प्रतिरक्षा मु प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के स आगे को जाने वाली सूची में प्रविष्ट करोगे। तुमको यह सूचना दी जाती है पूर्वर्वा दिवस की तुम्हारी उपजाति चैक होने पर वाद तुम्हारी अनुपस्थिति में सुना जावेगा अ मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक 08 -08 -2023 को निकाला ग न्यायालय की आजा

. गरिशिष्ट - ख- संख्या २) अज श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मकाम रायसिंह



भारतीय छंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत शरकार का नगरल उपकार) (A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA) NSIC New NDBP Building, 2nd Floor, Okhla Indi. Estate (Opp. NSIC Okhla Netro Station). New Delhi-118828 निविदा सूचना (केवल ई–टेंडरिंग पद्धति) आईसीडी मंडीदीप (मध्य प्रदेश) में आईएसओ / डीएसओ कंटेनरों की मरम्मत के लिए जगह वे लाइसेंस के लिए ओपन ई--टेंडर (सिंगल पैकेट में) के लिए ई--बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। कॉन / एरिया-॥ / (आईएसओ / डीएसओ) कंटेनर निविदा संख्या मरम्मत / एमसीटी / 2023 रु. 2.91,49,487/- (जीएसटी सहित) चार (4) वर्षों के लिए अनुमानित लागत बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) 15/08/2023 को 15:00 बजे से 30/08/2023 को (16:00 बजे तक) जमा करने की अंतिम तिथि और समय 31/08/2023 को 17:00 बजे तक खलने की तिथि और समय 01/09/2023 को 11:30 बजे पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com य eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से अनरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। कार्यकारी निदेशक / क्षेत्र-॥



any manner whatsoever.

ASHIANA HOUSING LIMITED

Registered Office: 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata, West Bengal-700071 Correspondence Address: 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi-110 017 Tel. No.: +91 011-42654265

Corporate Identification Number (CIN): L70109WB1986PLC040864 Contact Person: Mr. Nitin Sharma, Company Secretary and Compliance Officer Email ID: investorrelations@ashianahousing.com; Website: www.ashianahousing.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS /BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ASHIANA HOUSING LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the "Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buy Back Regulations") regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated July 13, 2023 published on July 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated July 29, 2023 ("Letter of Offer"), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUY BACK

- 1.1. Ashiana Housing Limited (the "Company") had announced the Buy Back of upto 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each of the Company ("Equity Shares" or "Shares"), at a price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of upto ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 7.23% and 7.32% of the aggregate of Company's fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2023 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism, on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.
- 1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- 1.3. The Buy Back Opening Date was Wednesday, August 02, 2023 and the Buy Back Closing Date was Tuesday, August 08, 2023.
- 2. DETAILS OF THE BUY BACK
- 2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares, at the price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One Only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding Transaction Costs
- 2.3. The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("Registrar"), considered a total of 15,659 valid bids for 7,69,46,135 Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 42.11 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No of valid Bids	Total no of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	2,74,087	14,587	12,30,298	448.87
General category for all other Eligible Shareholders	15,53,155	1,072	7,57,15,837	4,874.97
Total	18,27,242	15,659	7,69,46,135	4,211.05

2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Monday, August 14, 2023 (by email where the email id is registered with the Company or the depository) and was dispatched on Monday, August 14, 2023 (through physical intimation where email id is not available).

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on Monday, August 14.

- 2023. Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders
- 2.6. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company's demat account on Monday, August 14, 2023. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders /custodians by release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Monday, August 14, 2023. Excess physical Equity Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the Eligible Shareholder directly by the Registrar to the Buy Back.
- 2.7. The extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted under the Buy Back, comprising of 18,27, 208 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Eight) Equity Shares in dematerialized form and 34 (Thirty Four) Equity Shares in physical form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy
- Back Regulations, on or before Tuesday, August 22, 2023. 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
Α	Authorised Share Capital	
	17,50,00,000 Equity shares of ₹ 2/- each	35,00,00,000
В	Issued, Subscribed and Paid Up Capital before the Buy Back	113 111 33
	10,23,52,099 Equity shares of ₹ 2/- each	20,47,04,198
С	Issued, Subscribed and Paid Up Capital after the Buy Back*	
	10,05,24,857 Equity shares of ₹ 2/- each	20,10,49,714

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back

3.2. Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Equity Share sholder Shares accepted as a % of the under the Buy Back Shares bo		Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equit Share capital of the Company*	
1	Varun Gupta	3,99,241	21.85	0.40	
2	Ankur Gupta	3,99,202	21.85	0.40	
3	Vishal Gupta	2,77,207	15.17	0.28	
4	Rachna Gupta	1,22,104	6.68	0.12	
5	SBI Contra Fund	85,086	4.66	0.08	
6	OPG Realtors Limited	34,176	1.87	0.03	
7	ICICI Prudential Equity & Debt Fund	32,391	1.77	0.03	
	0 1 0 110 1111	00.404	4.40	0.00	

8 Cellour Commercial Pvt Ltd 20,104 1.10 *Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e., as of the Record Date, being Friday, July 28, 2023) and post the

	Pre Buy	Back#	Post Bu	y Back*
Particulars	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares
Promoter and Promoter Group	6,26,58,716	61.22	6,14,26,786	61.11
Financial Institutions / Banks/AIFs and Mutual Funds	72,92,408	7.12	10 0000	
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FPI / Foreign Nationals / Foreign Bodies Corporate etc.)	91,37,128	8.93	3,90,98,071	38.89
Others (public, public bodies corporate, trust, etc.)	2,32,63,847	22.73		
TOTAL	10,23,52,099	100.00	10,05,24,857	100.00

As on the Record Date

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back

4. MANAGER TO THE BUY BACK

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Contact Person: Mr. Deepak Yadav/ Mr. Pranav Nagar Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar-West, Mumbai - 400028, Maharashtra Tel. No.: +91 22 66121212; Fax No.: +91 22 66121299

Email id: ahl.buyback@emkayglobal.com

Website: www.emkayglobal.com SEBI Regn. No.: INM000011229

Validity Period: Permanent CIN: L67120MH1995PLC084899

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on July 12, 2023 and by the Buy Back Committee on August 14, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of Ashiana Housing Limited							
Sd/-	Sd/-	Sd/-					
Mr. Vishal Gupta	Mr. Varun Gupta	Nitin Sharma					
Managing Director	Director	Company Secretary and Compliance Office					
DIN: 00097939	DIN: 01666653	(ICSI Membership No.: A21191)					
Place: Frankfurt	Place: New Delhi	Place: New Delhi					

Date: August 14, 2023

www.readwhere.com

स्थान : नोएडा दिनांक: 14 अगस्त, 2023

डीआईएन नंबर। 07046151

राजीव जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

FINANCIAL EXPRESS

ANKA INDIA LIMITED

Regd off: 6 Legend Square Sector 33 Gurugram-122003 CIN: L74900HR1994PLC033268; Phone no: 9355511187; website: www.ankaindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER YEAR ENDED 30th June, 2023

S.			STANDA	ALONE	Amount Rs. In Lac CONSOLIDATED				
N.	Particulars		Quarter ended	120112	Year ended	Qua	rter	Previous year Eneded	
		30-Jun-23 Unaudited	31-Mar-23 Audited	30-Jun-22 Unaudited	31-Mar-23 Audited	30-Jun-23 Unaudited	31-Mar-23 Unaudited	31-Mar-23 Audited	
1	Total Income from Operations (net)		4.79	72,	4.89	10.78	53.85	150.20	
2	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(5.90)	(3.63)	(5.93)	(17.05)	(5.42)	32.44	(77,54)	
3	Net Profit for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(5.90)	(3.63)	(5.93)	(17.05)	(5.42)	32.44	(77.54)	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.90)	(3.63)	(5.93)	(17.05)	(5.42)	32,44	(77.54)	
5	Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other ComprehensiveIncome (after tax)]	1		2	34	84	32.54	77.44	
6	Paid up Equity Share(Face Value of Rs 10 Each) - Weighted Avg	87.38	62.81	92.74	62.81	87.38	62.81	62.81	
7	Paid up Equity Share(Face Value of Rs 10 Each) - Dilutive Weighted Avg	227.00	202.43	0.00	202.43	227.00	202.43	202.43	
8	Other Equity	NA.	NA	NA		NA	NA.	NA.	
9	Earnings Per Share (before Extraordinary items) (Face Value of Re.10/- each) Basic: Diluted:	(0.07)	(0.06)	(0.09)	(0.27)	(0.06)	0.52 0.16	(1.23) (0.38)	

 The above results are an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th-June-2023 filed with BSE LTD, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015, The full format of Statement of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th-June-2023 are available on the Stock Exchange websites at (www.bseindia.com) as well as on the Company's website at (www.ankaindia.com)

2. Attention is drawn to Note 3 to the sta tement that the Company continues to recognize minimum alternative tax paid in previous years amounting to Rs. 25.20 Lakhs as asset and expects the same to be adjusted against future tax payments. In our view, considering the past history of losses, which is resulting into negative net worth of the Company and overall financial position of the Company, it is not prudent on part the company to recognize the same as assets, and the same is not in consonance with provision s of "Guidance Note on accounting for credit available in respect of Minimum Altern ative Tax under the Income Tax Act, 1961.

> FOR AND ON BEHALF OF DIRECTORS ANKA INDIA LIMITED SULAKSHANA TRIKHA CHAIRMAN

CORRIGENDUM

General public is hereby informed that

By Indian Bank- Zonal Office Civil Lines

Moradabad Advertisement of

possession notice Under Sec 13(4)

Sarfasi Act 2002) published on 12.08.2023 Newspaper Financial

Express, please read Serial No. 1 (M/s.

Adhunik Technical Krishi Kendra) branch should be read as branch Amroha in

place of RAPC Civil Lines Moradabad

and Serial No. 2 (M/s. Spoorthy Rural

Distribution Services Pvt. Ltd.) branch should be read as branch-Gajraula in place of RAPC Civil Lines MORADABAD

Authorized Officer INDIAN BANK.

Rachna Building, 4th Floor, 2, Rajendra Place, Pusa Road,

New Delhi -110 008, Phone 011-25758124, Email: iob1997@iob.in

NOTICE

With reference to our E-Auction Sale notice published on

13.07.2023 in Financial Express (English) + Jansatta

(Hindi), we hereby inform that e-auction of all properties

under A/c M/s Varahi Diamonds and Finance issued vide

FINANCIAL EXPRESS

financialexpress.com

Authorized Officer

Indian Overseas Bank

auction notice dated 12.07.2023 stands withdrawn.

Place: New Delhi

Date: 15.08.2023

RAPC Civil Lines Moradabad

INDIAN OVERSEAS BANK

Asset Recovery Management Branch



ESPIRE HOSPITALITY LIMITED

CIN: L45202UR1991PLC000604

Regd Off: Shop No # 1, Country Inn, Mehragoan, Bhimtal, Uttarakhand-248179 Corproate Off: A-41, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044 (E)cs@espirehospitality.com (W): www.espirehospitality.com (T):011-71546500

Rs In Lacs

Quarter Ending ear Ending 30.06.2023 | 31.03.2023 | 30.06.2022 31.03.2023 **Particulars** Un-Audited Audited **Un-Audited Audited** Total Income from Operations 815.54 195.59 1,883.30 973.80 Net Profit/(Loss) for the period before tax, Exceptional Items and /or 47.65 Extraordinary Items 94.76 31.32 27.74 Net Profit/(Loss) for the period before tax, (after Exceptional Items and /or Extraordinary Items) 94.76 31.32 27.74 47.65 Net Profit/(Loss) for the periodafter tax, (after Exceptional Items and /or Extraordinary Items) 70.12 11.92 27.74 28.25 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income 5.91 27.74 22.24 70.12 Paid up Equity Share Capital 135,004.00 135,004.00 135,004.00 135,004.00 Earning Per Share (of Rs 10/- each)(for continuing and discontinuing operations)-Basic (in Rs) 0.52 0.04 0.21 0.16 Diluted (in Rs) 0.52 0.04 0.21 0.16

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI Listing and Other Disclosure Requirements)Regualtions,2015 .The full format of the yearly financial results are available on the Stock Exchange website:www.bseindia.com and company's website at :www.espirehospitality.com

> For and on behalf of the Board of Directors **Espire Hospitality Limited**

Sd/-Place: New Delhi Chairperson : Gagan Oberoi Date:14/08/2023 DIN:00087963

A.K. SPINTEX LIMITED Regd. Office:-14 K.M. STONE, CHITTOR ROAD, BILIYA-KALAN, BHILWARA-311001 (RAJ.) Ph: 9887049006, 9929139002

Email:-akspintex@gmail.com: Website:-www.akspintex.com (CIN: L17117RJ1994PLC008916) Audited Financial Result for the Quarter and 3 Month Ended June 30, 2023 (Rs. In lacs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2023	Quarter Ended 31.03.2023	3 Months Ended 30.06.2023	Year Ended 31.03.2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	3032.13	3232.28	3032.13	11643.27
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	317.57	154.38	317.57	732.42
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	317.57	83.58	317.57	732.42
Equity Share Capital	503.17	503.17	503.17	503.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		10	8	2549.37
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	4.43	3.07	4.43	14.56
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	4.43	3.07	4.43	14.56

Monthended 30th June 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats on Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE at www.bseindia.com and company's website at www.akspintex.com.

> For and on behalf of Board of Directors For A.K. SPINTEX LIMITED

(Prakash Chand Chhabra) Managing Director (DIN: 00155631)

Date: 14.08.2023

Place: Bhilwara

CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED Regd Office: A-2, OPP. UDOYG BHAWAN, TILAK MARG, C-SCHEME, JAIPUR RAJASTHAN 302005

CIN: L23201RJ1986PLC003704 • Email: cs.conpetco@gmail.com; conpetco@gmail.com Website: www.contol.in • Phone No: 0141-2222232

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for t	the Quarter l	Ended on 30t	th June, 2023	(Rs. in Lakhs
Particulars	3 months Ended	Preceding 3 Months ended	Corresponding 3 months ended in previous year	Previous Year Ended
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period	1207.4	2631.75	3010.94	9249.60
(before tax, Exceptional and/ or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	54.16	243.96	159.99	548.30
(after Exceptional and/ or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	54.16	243.96	159.99	548.30
(after Exceptional and/ or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)	33.02	176.84	114.23	394.29
and other Comprehensive Income (after tax)	33.02	176.84	114.23	394.29
Equity Share Capital (Face value per Share ₹ 5/- per Share)	278.03	278.03	278.03	278.03
Reserve excluding Revaluation Reserve Earnings Per Share	1891.52	1741.26	1628.43	1858.5
Basic	0.59	3.59	2.05	8.00
Diluted:	0.59	3.59	2.05	8.00

The above Unaudited Financial Results of the company for the guarter ended June 30th, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on The Company has business segment "Lubricants & Grease Manufacturing & Distribution, Incineration Service, Turnkey Projects"

Figures in respect of the previous year/period have been rearranged /regrouped wherever necessary to correspond with the figures of the current year/period The financial Result are prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) as

prescribed under section 133 of the companies act 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations 2015 and SEBI circular dated 5 July, 2016 630000 convertible warrants have been issued to the promoters on preferential basis are not considered for calculating as

approval for listing is awaited from BSE.

For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED Place: Jaipur Madan Lai Khandelwal (Chairman & Managing Director) DIN: 00414717 Date: 14.08.2023

RIBA TEXTILES LIMITED CIN:L18101DL1989PLC034528

Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office , New Delhi-110019.

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2023

SI. No.	Particulars	Quarter ending as on 30/06/2023 Un-audited	Proceeding 3 months ended 31/03/2023 Audited	ended in the previous year	Year ended 31/03/2023 Audited
1	Total income from operations	5166.56	6718.00	5967.81	24282.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) activities after tax"	149.13	501.99	155.45	974.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	149.13	501.99	155.45	974.08
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	106.33	385.00	106.06	740.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	106.33	385.00	106.06	740.25
6	Equity Share Capital	965.29	965.29	965.29	965.29
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)	=	(40)	NA	7170.92
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	1,10 1,10	3.99 3.99	1.10 1.10	7.67 7.67

3.05

3.05

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's Website

The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by Board of Directors of the Company at its meeting held on 14/08/2023 and Statutory Auditors have issued Limited Review Report on the By order of the Board

For RIBA TEXTILES LIMITED

(Asha Garg) Chairperson & Whole time Director punjab national bank the name you can BANK upon

CIRCLE SASTRA CENTRE, Noida, SH-12, 1st floor, Gama Shopping Centre, Sector-Gama-I, Greater Noida - 201308, Distt. Gautam Budh Nagar, E-mail: cs8290@pnb.co.in

CORRIGENDUM Refer to Advertisement E-Auction Notice

Published in this newspaper on 12-08-2023 it is informed to the general public that Property Auctioned by Bank on 21-09-2023 in A/c of M/s GD Enterprises at (Sr. No. 3) the Possession Date u/s 13(4) of Sarfeasi Act 2002 should be read as 28-07-2023 instead 27-07-2023 Rest will remain same.

Authorized Officer, Punjab National Bank

FORM NO. 5 THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007 (Area of Jurisdiction Uttar Pradesh)

(Summon to the Defendant under section 19(3) of the Recovery of Debts Due to Bankruptcy Act 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule 1993) O.A. No. 714/2022 Date : 23-02-2023

BANK OF BARODAApplicant

RR INDUSTRIES AND OTHERSDefendants

1. M/s R.R. Industries Through Its Proprietor Sh. Rakesh Maheshwari Having its Office at Opp. Bharat Yadav Hotel, Near Sabli Gram Gate, Delhi Road, Hapur,

2. Sh. Rakesh Chandra Maheshwari S/o Sh. Suresh Chandra Maheshwari R/o-584. Mata Mohlla, Govind Puri, Modi Nagar, 201204 (U.P.)

3. Sh. Rahul Maheshwari R/o-585, Mata Mohlla, Govind Puri, Modi Nagar, 201204 (U.P.)

In the above noted application, You are required to file reply in Paper Book form in two sets, along with the documents and the affidavit personally or through your duly authorized agent or legal practitioners in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the tribunal on 24-08-2023 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence

Debts Recovery Tribunal,

Form No. INC-26 {Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} Before the Central Government.

(Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of RUE FASHION PRIVATE LIMITED (CIN: U51909UP2016PTC086310) having its Registered Office at

Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201304 ...Applicant Company / Petitioner **NOTICE** is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make application to the Central Governmen under Section 13(4) of the Companies Act 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the

Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **03rd July, 2023** to enable the Company to change its Registered Office from "State of Uttar Pradesh" to the "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may delive either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his /her objections

supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteer notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201304 For & on behalf of

PRITAM PRIYADARSH DIN: 07589085 Place: Noida

E.Mail: company.affairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com, Tel. No.: 011-26236986

SI. No.	Particulars	Quarter ending as on 30/06/2023 Un-audited	Proceeding 3 months ended 31/03/2023 Audited	ended in the previous year	Year ended 31/03/2023 Audited
1	Total income from operations	5166.56	6718.00	5967.81	24282.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) activities after tax"	149.13	501.99	155.45	974.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	149.13	501.99	155.45	974.08
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	106.33	385.00	106.06	740.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	106.33	385.00	106.06	740.25
6	Equity Share Capital	965.29	965.29	965.29	965.29
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)		(-2)	NA	7170.92
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	1,10	3.99 3.99	1.10 1.10	7.67 7.67

www.ribatextiles.com.

DIN:06987609

DATE :- 14/08/2023 financiale

R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email id:-cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the First Quarter ended on 30th June, 2023 (₹ in lakhs)

	1			
Particulars		Year ender		
Particulars	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited) Refer Note 3	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.202 (Audited)
Total income from operations (net)	544.30	409.84	506.28	1837.92
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	65.16	(22.68)	48.50	64.37
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	65.16	(22.68)	48.50	64.37
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	57.66	(18.36)	42.50	59.41
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	53.13	(12.13)	41.00	52.03
Equity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year		0		3,513.86
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	0.48 0.48	(0:11) (0:11)	0.35 0.35	0.47 0.47

Particulars	Standalone Quarter ended			(₹ in lakhs)	
				Year ended	
	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited) Refer Note 3	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	
otal income from operations (net)	32.37	18.22	19.74	77.61	
Profit before tax	1.83	(0.07)	0.65	1.76	
Profit after tax	1.53	(1.00)	0.55	0.13	
Notes:	The second				

The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com. The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement principles of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS), as amended by the Companies

(Indian Accounting Standards) (Amended rules), 2016 prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. The figures for the quarter ended 31st March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2023 and the published unaudited year

to date figures upto nine months ended 31st December 2022, which were subject to Limited review For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited Rajat Prasad

Date: 14th August, 2023 Place: New Delhi

SABOO BROTHERS LIMITED CIN: L45100RJ1979PLC001851 Reg. Off.: 220, Ashok Nagar Main Road Girwa Girwa RJ 313001

Extract of Financial Results	for the Q	uater end	led June (30, 2023	
Standalone	Rs. in Lakhs				
Particulars	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 31,03,2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.202	
Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	11.97 5.34	30.36 1.87	1.51 1.42	33.45 4.55	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	5.34	1.87	1.42	4.55	
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- per Equity Share)	609.62	609.62	609.62	609.62	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)		\$11	200	\$1	
Basic :	0.09	0.03	0.02	0.07	
Diluted:	0.09	0.03	0.02	0.07	
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)					
Basic:	0.09	0.03	0.02	0.07	
Diluted:	0.09	0.03	0.02	0.07	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial results are available on the Stock Exchange website .(URL of the

For and on behalf of the Board of Directors Place: Udaipur

Date: August 14, 2023

(A) Basic

(B) Diluted

PLACE :- NEW DELHI

SABOO BROTHERS LIMITED NIKHIL KUWAR SINGH (DIN: 09127337) Whole Time Director

> **EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED** (FORMERLY EMERGENT GLOBAL EDU & SERVICES LIMITED) CIN L80902DL1983PLC209722

Managing Director

DIN: 00062612

Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi - 110 001; Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914; Email: cs@somanigroup.com; website: www.eesl.in

Extract of Statement of Standalone & Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2023 Rs. in Lacs Except Number of Shares & EPS) Consolidated Standalone Quarter Year Quarter Year Ended Ended Ended Ended **Particulars** 30" June | 31" Mar 30" June 31" Mar 30" June 31" Mar 30" June 31" Mar 2023 2022 2023 2023 2023 2022 2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Audited 1,195.39 Total Revenue 554.50 8.171.80 1,198.24 15,454,14 551.44 8.169.02 5.442.7 Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) 57.02 66.59 51.05 198.60 53.73 63.36 47.93 186.32 Profit/Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 66.59 47.93 57.02 51.05 198.60 53.73 63.36 186.32 Profit (+)/Loss(-) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 43.16 38.42 40.50 47.42 139.47 49.79 149.23 35.89 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 43.16 50.70 150.14 40.50 48.33 35.89 140.38 38.42 Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share) 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 1,919.58 Other Equity excluding Revaluation Reserves, as per Balance Sheet of Previous Accounting Year .770.08 Earning Per Share (Before Extraordinary Items) (Not Annualised) (A) Basic 0.94 0.89 1.04 0.79 3.05 1.09 0.84 3.27 (B) Diluted 0.94 1.09 0.84 3.27 0.89 1.04 0.79 3.05 Earning Per Share (After Extraordinary Items) (Not Annualised)

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter Ended 30" June, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The Full format of the Standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange Website

0.94

0.94

1.09

1.09

0.84

0.84

By order of the Board For Emergent Industrial Solutions Limited

0.89

0.89

3.27

3.27

Sd/-

1.04

1.04

SHOBHA SAHNI (CHAIR PERSON) DIN: 07478373

0.79

0.79

Date: 14.08.2023

Place : Panipat

Kishore House, Assandh Road, Panipat, 132103 Haryana

New Delhi

Near Radission Blu, New Delhi-110078 For and on behalf of the Applicant FOR M/s Signocea Labs (OPC) Pvt. Ltd. Sd/- Sheikh Affan Alam Date: 25/07/2023 Director Place: Delhi DIN - 09422329

www.bseindia.com and on the Company's website www.eesl.in.

Date: 14/08/2023

Place: Gurugram

Regional Director, Northern Region, New Delhi In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

12A03, Tower-09, Paras Teirea, Sector-137,

14) days from the date of publication of this 12A03, Tower-09, Paras Teirea, Sector-137.

RUE FASHION PRIVATE LIMITED Date: 14.08.2023

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 And clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of M/s SIGNOCEA LABS (OPC) PVT LTD(CIN: U51909DL2021O PC390750) Having Its Registered Office At

Plot No. 94, 3rd Floor, PKT-10, SEC-13 Dwarka, Opposite Metro Station Near

Radission Blu, New Delhi-110078

NORTHERN REGION, DELHI

..... Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on TUESDAY, 25TH JULY, 2023 to enable the company to change its Registered Office from "State of Delhi(Delhi) to "State of Punjab" (Chandigarh)"

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the

registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: Regd. Off: Plot No. 94, 3rd Floor, PKT-10,

SEC-13 Dwarka, Opposite Metro Station